

आज दिनांक 10.06.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नाथनगर से इवेन्ट संख्या 09119 से कालर मार्ग दुर्घटना में 03 व्यक्तियों (नाम पता खुर्शीद पुत्र जलालुद्दी, फरीदुन्निशा पत्नी खुर्शीद, रिजवान पुत्र खुर्शीद) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट में पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी प्रदीप यादव, हो0चा0 शशिकान्त ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 135 वाहनो से 1,84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.06.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 135 वाहनो से 1,84,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।